

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14—मार्च 20, 2015 (फाल्गुन 23, 1936)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14—MARCH 20, 2015 (PHALGUNA 23, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2014

सं. 3(9)/2014—प्रशासन—राष्ट्रपति, मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री मुकेश कुमार को दिनांक 01.12.2014 से एक वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता तब तक, इनमें से जो भी पहले हो, रु. 6,600/— ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड पी.बी.—3 (रु. 15,600—39,100/—) में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

सं. 3(9)/2014—प्रशासन—राष्ट्रपति मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्रीमती पदमा राठी को दिनांक 01.12.2014 से एक वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता तब तक, इनमें से जो भी पहले हो, रु. 6,600/— ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड पी.बी.—3 (रु. 15,600—39,100/—) में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

सं. फा. 3(9)/2014-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री पी. के. हलदर, अनुभाग अधिकारी को मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600—39,100/-) सहित ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में 01.12.2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित आधार पर न भरा जाए, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

मुकेश कुमार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2015

सं. ए-32013/5/2014-प्रशा. I (वि.वि.)—राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के निम्नलिखित अपर विधायी परामर्शियों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड I) के पद पर कार्य करने के लिए रुपये 37,400—67,000/- के वेतन बैंड-4 और रुपये 10,000/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 04 फरवरी, 2015 की पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री खेत्राबासी बिस्वाल
2. डॉ. नारायणा राव बट्टू
2. श्री खेत्राबासी बिस्वाल तथा डॉ. नारायण राव बट्टू की पदोन्नति, सी.ए.टी. के दिनांक 27.02.2014 के आदेश ओ.ए. सं. 3893/2012 के विरुद्ध विधायी विभाग द्वारा दायर (i) एस.एल.पी. सं. 1177/2014 तथा (ii) रिट याचिका सं. 5891/2014 के परिणाम पर निर्भर होगी।

3. श्री खेत्राबासी बिस्वाल तथा डॉ. नारायण राव बट्टू 04.02.2015 से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2015

सं. ए-12026/1/2014-प्रशा-III (वि.का.)—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 20(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती शारदा जैन, भूतपूर्व संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को दिनांक 20 फरवरी, 2015 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी 62 वर्ष की आयु होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 67,000—79,000/- के वेतनमान में विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, नई दिल्ली में सदस्य के पद पर नियुक्त करती हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2015

सं. 24012/22/2014-स्था. (ख)—राष्ट्रपति, श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसन्ना बिदारी, आई.ए.एस. (एम.एच. : 2001) को दिनांक 21 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों जो भी पहले हो, तक के लिए क्षेत्रीय निदेशक (उप सचिव स्तर), कर्मचारी चयन आयोग बंगलौर में नियुक्त करते हैं।

जी. जयंती, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2015

सं. 14013/06/2013-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आबंटित महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से स्थायी करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री/श्रीमती)	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	श्री के. वी. कुरुन्दकर	2002	19.01.2013
2.	श्री एस. वी. देशपाण्डे	2002	19.01.2013

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2015

सं. 14015/18/2014-अ.भा.से. (I)(क)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत पंजाब संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत तथा 03.02.2015 को अनुमोदित दिनांक 22.12.2014 को तैयार की गई पंजाब के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूचियों को विनियम 7(2) के अंतर्गत अधिसूचित करते हैं:—

वर्ष 2013 की चयन सूची (01.01.2012 से 31.12.2013 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	प्रदीप कुमार (अनु. जाति)	01.01.1965
2.	कुलदीप सिंह वैद (अनु. जाति)	02.02.1961
3.	शिवदुलार सिंह ढिल्लों	24.07.1960
4.*	बख्तावार सिंह (अनु. जाति)	17.02.1960
5.	राजीव पराशर	12.11.1970
6.	विनय बुबलानी	08.02.1970

*क्रम सं. 4 पर दिया गया नाम सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के अधधीन है।

2. समिति की सिफारिशें श्री प्रनीत द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ में दायर मूल आवेदन (ओ. ए.) सं. 060/01128/2014 के परिणाम के अधीन है।

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं. 14015/18/2014-अ.भा.से. (I)(ख)— राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2013 की चयन सूची के लिए पंजाब की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें पंजाब संवर्ग आबंटित करते हैं :

वर्ष 2013 की चयन सूची (01.01.2012 से 31.12.2013 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)
1.	प्रदीप कुमार (अनु. जाति)
2.	कुलदीप सिंह वैद (अनु. जाति)
3.	शिवदुलार सिंह ढिल्लों
4.	राजीव पराशर
5.	विनय बुबलानी

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति श्री प्रनीत द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ में दायर मूल आवेदन (ओ. ए.) सं. 060/01128/2014 के परिणाम के अधीन है।

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2015

सं. 14015/17/2014-अ.भा.से. (I)(ख)—संघ लोक सेवा आयोग दिनांक 04.02.2015 के पत्र सं. फा. सं. 6/14/2014—अ.भा.से. द्वारा चयन सूची 2013 में निम्नलिखित नाम जो दिनांक 01.10.2014 को इस विभाग की अधिसूचना

सं. 14015/17/2014-अ.भा.से.-क द्वारा अधिसूचित किया गया था "बिना शर्त" शामिल किए जाने और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2013 के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए ओडिशा की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत ओडिशा संवर्ग आवंटित करते हैं :—

वर्ष 2013 की चयन सूची (01.01.2013 से 31.12.2013 के बीच होने वाली रिक्तियों के लिए)

चयन सूची में क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
3.	अनन्त चरण नायक

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2015

सं. ए-32015/8/2006-संवर्ग(प्रशा.-IV)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 के का.ज्ञा. सं. 6/7/2013-सी.एस.-I (एस) के अनुसार, राष्ट्रपति संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2012 एवं 2013 के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से तथा उक्त चयन सूची के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के अनुभाग अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	चयन सूची वर्ष	अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री निधी शर्मा	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
2.	श्री मुकेश कुमार	2012	29.12.2014 (पूर्वाह्न)
3.	श्री अभिषेक कुमार उपाध्याय	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
4.	सुश्री भवानी आर.	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
5.	श्री सूर्य प्रकाश	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
6.	सुश्री शेफाली सराफ	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
7.	श्री प्रशान्त गुप्ता	2012	29.12.2014 (पूर्वाह्न)
8.	श्री वेद प्रकाश सिंह	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
9.	श्री नीलेश चंद्र श्रीवास्तव	2012	29.12.2014 (पूर्वाह्न)
10.	श्री विक्रम कुमार यादव	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
11.	सुश्री ज्योति बाला	2012	30.12.2014 (अपराह्न)
12.	श्री अजय लवानिया	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
13.	श्री अब्दुल गुफरान	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
14.	श्री संतोष कुमार अग्रवाल	2012	29.12.2014 (पूर्वाह्न)
15.	श्री जयवीर सिंह	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
16.	श्री शिव राम मीना	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
17.	श्री विनय कुमार	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
18.	श्री पी. एस. मृत्युन्जयन	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
19.	श्री नवीन चंद्र जोशी	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
20.	श्री कन्हैया लाल	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
21.	श्री सुरेन्द्र सिंह	2012	26.12.2014 (अपराह्न)

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	चयन सूची वर्ष	अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की तारीख
22.	श्री कुलदीप पार्वी	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
23.	श्री विवेक कुमार सिंह	2012	29.12.2014 (पूर्वाह्न)
24.	सुश्री अमृता वालिया	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
25.	श्री राम लखन	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
26.	सुश्री निधी पाण्डेय	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
27.	श्री हीरामन राम	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
28.	श्री सत्य प्रकाश कुमार	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
29.	श्री गौरांग गोस्वामी	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
30.	श्री प्रदीप कुमार	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
31.	श्री मनोज कुमार मीना	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
32.	श्री विवेक सिंह पाईक्रा	2013	26.12.2014 (अपराह्न)

2. उनकी नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अधीन तथा किसी भी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के अनुसार भी होगी :—

- संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री शांति लाल बुरासी व अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर मामला डब्ल्यू. पी. (सी.) सं. 508/2014।
- संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री एम. आर. मीना व अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर मामला डब्ल्यू. पी. (सी.) सं. 5793/2014।
- संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री राजीव आर. व अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर मामला डब्ल्यू. पी. (सी.) सं. 508/2014।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2015

सं. ए-12011/6/2009-प्रशा.-II—राष्ट्रपति, संशोधित चयन सूची वर्ष के संबंध में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के क्रमशः दिनांक 16.01.2015 और 20.01.2015 के का. झा. सं. 6/1/2015-सीएस. I (एस)-I और 6/2/2015-सीएस. I (एस)-I और व्यय विभाग के दिनांक 16.02.2015 के का. झा. सं. 12025/3/2010-सीएस (खण्ड-III), के अनुसरण में वरिष्ठता कोटे में से प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तारीख से निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	पूर्व चयन सूची	संशोधित चयन सूची	को कार्यभार संभाला
1.	प्रतिभा शर्मा, अनुभाग अधिकारी	2011	2010	31.12.2013
2.	अर्चना नागर, अनुभाग अधिकारी	2010	2009	31.12.2013

2. केन्द्रीय सचिवालय उल्लिखित अनुभाग अधिकारियों की नियमित नियुक्ति के ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारियों की यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अधीन होगी :—

- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री राजीव आर. और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ. ए. सं. 4135/2012, एम.ए. सं. 3477/2012।
- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री एम. आर. मीणा और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ. ए. सं. 4082/2012 और एम.ए. सं. 3448/2012।

- (iii) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री शांति लाल बौरासी और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ. ए. 4141/2012।
- (iv) उच्च न्यायालय दिल्ली में श्री सौरांशु सिन्हा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यू (सी) सं. 2735/2013।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2015

सं. ए-42011/1/2015-प्रशासन-II—दिनांक 08.12.2014 के कार्यालय आदेश सं. 22011/1/2014 के द्वारा हुए स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान अधिकारी, श्री सुधीर कपूर ने दिनांक 26.12.2014 (अपराह्न) से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में उपनिदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

राकेश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-42011/1/2015-प्रशा.-II—भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ने उनका स्थानांतरण होने के फलस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों में अपने नाम के आगे दी गई तारीख से अपना-अपना पदभार संभाल लिया है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम और कार्यालय	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री आर. के. साहू	कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक, बिलासपुर	28.08.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ओ. पी. शर्मा	कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक, जम्मू व कश्मीर	01.09.2014 (पूर्वाह्न)
3.	श्री वी. पी. काटकर	कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक, गोवा	18.11.2014 (अपराह्न)
4.	श्री सैय्यद मो. अथर मिकाइल	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार-सह-सहायक शासकीय समापक, पटना	15.12.2014 (पूर्वाह्न)

2. केन्द्र सरकार एतद्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(75) और धारा 448 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 396 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईसीएलएस के इन अधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती है।

राकेश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-42011/1/2015-प्रशा. II—भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ने स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों में उनके संबंधित पद पर उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से कार्यग्रहण कर लिया है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम और कार्यालय	प्रभावी होने की तारीख
1.	श्री डी. पी. ओझा	शासकीय समापक, दिल्ली	03.12.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एम. जय कुमार	शासकीय समापक, चण्डीगढ़	08.12.2014 (पूर्वाह्न)

2. केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के इन अधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती है।

राकेश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-42011/1/2015-प्रशा. II—भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ने उनका स्थानांतरण होने के फलस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों में अपने नाम के आगे दी गई तारीख से अपना-अपना पदभार संभाल

लिया है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम और कार्यालय	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री वी.ई. जोस कुटी	उप कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, कोयंबटूर	19.09.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ए. सेहर पोहराज	कंपनी रजिस्ट्रार, एर्नाकुलम	07.10.2014 (पूर्वाह्न)
3.	सुश्री तृप्ति सुभाष शर्मा	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई	22.10.2014 (पूर्वाह्न)
4.	सुश्री अपर्णा मुडियम	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, दिल्ली	22.10.2014 (पूर्वाह्न)
5.	श्री श्रीधर परमार्थी	कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई	24.10.2014 (अपराह्न).
6.	श्री शेष व्योमेश राजेश कुमार	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, अहमदाबाद	28.10.2014 (पूर्वाह्न)

2. केन्द्र सरकार, एतद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(75) के साथ पठित धारा 396 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईसीएलएस के इन अधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती है।

राकेश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-42011/1/2015-प्रशासन. II—भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ने उनका स्थानांतरण आदेश के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों में उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से अपने संबंधित पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम तथा कार्यालय	तिथि
1.	श्री के. जी. जोसेफ जैक्सन	उप निदेशक, प्रादेशिक निदेशक (दक्षिण क्षेत्र), चैन्नई	01.09.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री सुधीर फाए	सहायक निदेशक, प्रादेशिक निदेशक (उत्तर-पश्चिम क्षेत्र), अहमदाबाद	11.12.2014 (पूर्वाह्न)
3.	श्री कमल हरजानी	उप निदेशक, प्रादेशिक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई	29.12.2014 (पूर्वाह्न)

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्वारा आईसीएलएस के इन अधिकारियों को निरीक्षक के रूप में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है।

राकेश कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2015

सं. ए-45011/04/2014/स्थापना-I—राष्ट्रपति, अनुभाग अधिकारी ग्रेड संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2012 और 2013 के परिणाम के आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के लिए आबंटित निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के आगे दर्शायी गई तारीख से अगले आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सीएसएस संवर्ग में वर्ष 2013 की चयन सूची के लिए नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	रैंक	संवर्ग जहां सहायक के रूप में कार्यरत थे	निम्नलिखित तारीख से प्रभावी
1.	एम. वी. सीएच. पदमावती	117	आईपीपी	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
2.	शत्रुघ्न सिंह गुर्जर	148	आईपीपी	26.12.2014 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त नियुक्तियां निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अधधीन तथा किसी संबद्ध मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अनुसार भी होंगी :

- (i) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में श्री शांति लाल बौरासी एवं अन्य बनाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दायर डब्ल्यू पी (सी) सं. 5080/2014

- (ii) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में श्री एम. आर. मीणा एवं अन्य बनाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दायर डब्ल्यू पी (सी) सं. 5793/2014
- (iii) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में श्री राजीव आर एवं अन्य बनाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दायर डब्ल्यू पी (सी) सं. 6468/2014

राजेश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110107, दिनांक 18 फरवरी 2015

सं. ए-19011/759/10-स्थापना-I—राष्ट्रपति औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) सुश्री दीपा उपाध्याय को सीसीएस (पेंशन नियमावली) के नियम 48-क के तहत 16 फरवरी, 2015 पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय
(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

मुंबई-400020, दिनांक 27 फरवरी 2015

सं. 5(84)/2015/स्था.-एक/132—संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 31.10.2013 के पत्र सं. एफ. 1/114(13)/2013-आर. IV द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री निलय एच. पंड्या को दिनांक 03 मार्च, 2014 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में वेतनमान-2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड पे रु. 4,600/— में सहायक निदेशक श्रेणी-II (गैर-तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 03.03.2014 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

अशोक हाजरा, निदेशक (प्रशासन)

सं. 5(84)/2015/स्था.-एक/132—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री संतोष व्ही. पाखरे, आर्थिकी अधिकारी को दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में वेतनमान-2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड पे रु. 4,600/— में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक श्रेणी-II (आर्थिकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 12.12.2014 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

अशोक हाजरा, निदेशक (प्रशासन)

सं. 5(84)/2015/स्था.-एक/132—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री एन. सी. गुप्ता, तकनीकी अधिकारी को दिनांक 09 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में वेतनमान-2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड पे रु. 4,600/— में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक श्रेणी-II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 09.01.2015 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

अशोक हाजरा, निदेशक (प्रशासन)

सं. 5(84)/2015/स्था.-एक/132—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री एस. के. सिंह, तकनीकी अधिकारी को दिनांक 09 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में वेतनमान-2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड पे रु. 4,600/— में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक श्रेणी-II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 09.01.2015 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

अशोक हाजरा, निदेशक (प्रशासन)

सं. 5(84)/2015/स्था.-एक/132—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री आशुतोष जोहरी, तकनीकी अधिकारी को दिनांक 12 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में

वेतनमान—2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड पे रु. 4,600/— में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक श्रेणी—II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 12.01.2015 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

अशोक हाजरा, निदेशक (प्रशासन)

सं. 5(84)/2015/स्था.—एक/132—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री एस. आर. बैसवारिया, कार्यालय अधीक्षक को दिनांक 28 जनवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में वेतनमान—2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड पे रु. 4,600/— में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक श्रेणी—II (गैर—तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 28.01.2015 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

अशोक हाजरा, निदेशक (प्रशासन)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2015

सं. ए-12025/6/2010-एस ए—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा महेंद्र कुमार यादव को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में 15,600—39,100/— रुपये के वेतनमान (पी.बी.—3) तथा 5,400/— रुपये के ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती आधार पर कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह “क” राजपत्रित गैर—अनुसूचित पद) के पद पर दिनांक 08.12.2014 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

जितेन्द्र जुयाल, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 11 फरवरी 2015

सं. ए-31013/01/2012—सीएचएस—VI—राष्ट्रपति निम्नलिखित सहायक प्रोफेसरों (दंत चिकित्सा) को उनके सामने उल्लिखित तारीख से सामान्य केन्द्रीय सेवा संवर्ग में नियुक्ति करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने का स्थान	नियुक्ति की तिथि	पुष्टि की तिथि
1.	डॉ. कार्तिकेयन सिवनाथ सोमालिंगा	एल.एच.एम.सी. एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली	29.04.2013	29.04.2014
2.	डॉ. आनन्द गुप्ता	एल.एच.एम.सी. एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली	26.03.2013	26.03.2014
3.	डॉ. राकेश कुमार शर्मा	एल.एच.एम.सी. एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली	04.03.2013	04.03.2014

ललित कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2015

सं. 22012/01/2014—स्था.—I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.02.2015 के आदेश संख्या 5/3/2015—सीएस. I (यू) के द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा श्री बिराज सिंह, अनुभाग अधिकारी (सी. एस.एल. सं. 8879) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में ग्रेड—I (अवर सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर वेतन बैंड—3 रुपये 15,600—39,100/— + रु. 6,600/— ग्रेड वेतन में दिनांक 20.02.2015 (पूर्वाह्न) से 28.02.2015 तक और जब तक पद नियमित आधार पर भरे जाते हैं, और अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

2. ग्रेड—I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त आदेश में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अधीन है।

ब्रजेश गोडरा, अवर सचिव

सं. 38012/2/2014-स्था.-I—श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2015 अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

ब्रजेश गोडरा, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2015

सं. 38013/13/2014-स्था.-I—श्री बिराज सिंह, अवर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2015 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

ब्रजेश गोडरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2015

सं. 12-5/2014-एम. एवं टी. (प्रशा.)—राष्ट्रपति, श्री जे. जे. आर नरवरे को वेतन बैंड-3, (रुपये 15,600—39,100/-) + ग्रेड वेतन रुपये 7,600/- रुपये में 12.02.2015 (अपराह्न) प्रभाव से प्रोन्नत करते हुए नियमित आधार पर निदेशक (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय), फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी. बी. भगत, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. ए-12022/02/2013-स्था.-I—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.11.2014 के पत्र सं. 36/38/2014-ई.ओ.-एसएम (I) के अनुसरण में, श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, आईएएस (एएम : 81) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में 16.10.2014 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक, विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. एस. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. ए-12022/02/2013-स्था.-I—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.11.2014 के पत्र सं. 27/15/2014-ई.ओ.-एसएम (I) के अनुसरण में, श्री संजीव कुमार, आईडीएएस (1986) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 01.12.2014 से अगले तीन माह के लिए बढ़ाते हैं।

एन. एस. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर 2014

सं. ए-32013/01/2008-स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.09.2014 के आदेश सं. 5/11/2014-सीएस-I (यू.) के अनुसरण में, राजस्व विभाग के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएल सं. 8492) के अनुभाग अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी को तदर्थ आधार पर 20.11.2014 (अपराह्न) से 31.05.2015 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना उस ग्रेड में वरीयता अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी।

एन. एस. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2015

सं. ए-19011/10/2013-स्था. I—श्री सुधीर भार्गव, आई.ए.एस. (राजस्थान : 1979), सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 12.01.2015 को 60 वर्ष की अधिवर्षिकी आयु प्राप्त करेंगे। अतः श्री सुधीर भार्गव, आई.ए.एस. को

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2015 के अपराह्न से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव के रूप में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

एन. एस. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2015

सं. ए-12022/02/2013-स्था.-I—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2015 के पत्र सं. 36/1/2015-ई.ओ-(एसएम-I) (2) के अनुसरण में, सुश्री अनिता अग्निहोत्री, आई.एस (ओआर:80) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में 02.02.2015 (पूर्वाह्न) से सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. एस. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

डिसेबिलिटी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

सं. ए-42018/13/2011-स्थापना—राष्ट्रपति द्वारा, श्री मुकेश जैन, आई.पी.एस. (म.प्र.:1989) का, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.11.2014 के आदेश संख्या 33/07/2014-ईओ (एम.एम-1) (20) के तहत विद्युत मंत्रालय से स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 10.11.2014 (अपराह्न) से उनके कार्यकाल 06.04.2016 तक, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर डिसेबिलिटी कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

प्रदीप पुरोहित, अवर सचिव

दिनांक 18 दिसम्बर 2014

सं. ए-32013/2/2014-स्थापना—राष्ट्रपति द्वारा, श्री विशाल गगन, आई.ए.एस. (ओडिशा:98) को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/11/2012-ईओ (एस.एम-1) के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 5.11.2014 (पूर्वाह्न) से उनके कार्यकाल 11.10.2015 तक, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर डिसेबिलिटी कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

प्रदीप पुरोहित, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2015

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2015 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:—

(i)	श्री आर. के टंडन,	अपर सदस्य (सीएंडआईएस)
(ii)	श्रीमती ममता कंडवाल	निदेशक
(iii)	श्री अशोक मुंजाल,	अनुभाग अधिकारी
(iv)	श्री कनापुर्ति वेंकटरमैया,	अनुभाग अधिकारी
(v)	सुश्री पुष्पा अरोड़ा,	अनुभाग अधिकारी
(vi)	श्री ए. रंगनाथन,	निजी सचिव
(vii)	श्री बी. के. सिंह,	सहायक सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—श्री डी. पी. पांडे, सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2015 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—श्रीमती सरोज रजवाड़े, अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड 30.12.2014 के पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2015

सं. 09/2015. फा. सं. 22/705/2011—प्रशा. I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारी श्री रमेशबाबू अणियेरी को राजभाषा विभाग के दिनांक 08.12.2014 के कार्यालय आदेश सं. 15/9/2013—रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में वर्ष 2012-13 की रिक्ति के लिए दिनांक 08.12.2014 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर निदेशक (रा.भा.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 फरवरी 2015

सं. ए-19011/22/2015—प्रशासन—राष्ट्रपति, दिनांक 09 फरवरी, 2015 के पूर्वाह्न से श्री निपुन विनायक, आईएएस (एमएच:2001) को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. नारायण रेड्डी, अवर सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 25th November 2014

No. 3(9)/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar, Section Officer in the Ministry as Under Secretary on ad hoc basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 01.12.2014 for a period of one year, or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

No. 3(9)/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Padmavati Rathi, Section Officer in the Ministry as Under Secretary on ad hoc basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,000/- w.e.f. 01.12.2014 for a period of one year, or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy

New Delhi, the 5th December 2014

No. 3(9)/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Halder, Section Officer in the Ministry as Under Secretary on ad hoc basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 01.12.2014 for a period of one year, or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

MUKESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 4th February 2015

No.A.32013/5/2014-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint the following Additional Legislative Counsels (Grade-II of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, to officiate as Joint Secretary and Legislative Counsel (Grade-I of Indian Legal Service) in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs.10,000/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 4th February, 2015 and until further orders:-

(i) Shri Khetrabasi Biswal

(ii) Dr. Narayana Rao Battu

2. Promotion of Shri Khetrabasi Biswal and Dr. Narayana Rao Battu will be subject to outcome of (i) SLP No. 1177/2014 and (ii) W.P.No. 5891/2014 filed by the Legislative Department challenging the order dated 27.02.2014 of CAT in O.A.No. 3893/2012.

3. Shri Khetrabasi Biswal and Dr. Narayana Rao Battu will be on probation for a period of two years with effect from 04.02.2015.

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th February 2015

No. A-12026/1/2014-Admn.III (LA)—In exercise of the powers conferred under section 20 (1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government is pleased to appoint Smt. Sharda Jain, former Joint Secretary & Legislative Counsel, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, as Member of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange, New Delhi, in the scale of Rs.67000—79000/- with effect from the forenoon of 20th February, 2015, for a period of 5 years or until she has attained the age of 62 years, or until further orders, whichever is earlier.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 10th February 2015

No. 24012/22/2014-Estt (B)—The President is pleased to appoint Smt. Vijayalakshmi Prasanna Bidari, IAS (MH:2001) as Regional Director (Deputy Secretary level), Staff Selection Commission, Bangalore with effect from 21st January, 2015 (Forenoon) for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

G. JAYANTHI, Dir.

New Delhi, the 9th February 2015

No.14013/06/2013 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra in the Indian Administrative Service, with effect from the date shown against him:

Sl. No.	Name of the Officer S/Sh/Smt.	Batch	Due Date of Confirmation
1.	Shri K.V.Kurundkar	2002	19.01.2013
2.	Shri S.V.Deshpande	2002	19.01.2013

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 4th February 2015

No. 14015/18/2014-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Punjab containing the following names prepared on 22.12.2014 under Regulation 5(5) and approved on 03.02.2015, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Punjab cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government:-

Select List of 2013 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12.2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Pardeep Kumar (SC)	01.01.1965
2.	Kuldeep Singh Vaid (SC)	02.02.1961
3.	Shivdular Singh Dhillon	24.07.1960
4*.	Bakhtawar Singh (SC)	17.02.1960
5.	Rajiv Prashar	12.11.1970
6.	Vinay Bublani	08.02.1970

* The name at S.No. 4 has been included in the List provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him.

2. The recommendations of the Committee are subject to the outcome of O.A. No. 060/01128/2014 filed by Shri Praneet before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench.

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/18/2014-AIS (I)-B.—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Punjab to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2013, on probation until further orders and to allocate them to the Punjab Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2013 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12. 2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)
1.	Pardeep Kumar (SC)
2.	Kuldeep Singh Vaid (SC)
3.	Shivdular Singh Dhillon
4.	Rajiv Prashar
5.	Vinay Bublani

2. The appointment of above officers is subject to the outcome of O.A. No. 060/01128/2014 filed by Shri Praneet before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench.

NITIN GUPTA, Under Secy.

The 25th February 2015

No. 14015/17/2014-AIS (I)-B.—Consequent upon declaration of inclusion of the following name as 'Unconditional and final' by the Union Public Service Commission through its letter no. F. No. 6/14/2014-AIS dated 04.02.2015 in the Select List of 2013, which was notified through this department's notification no. 14015/17/2014-AIS(I)-A dated 01.10.2014 and in exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint following member of the State Civil Service of Odisha to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2013 on probation until further orders and to allocate him to the Odisha cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List of 2013 (against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12. 2013)

S.No. in the Select list	Name of the Officer(S/Shri)
3.	Ananta Charan Nayak (SC)

NITIN GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 20th February 2015

No.A-32015/8/2006-Cadre(Ad.IV):- In terms of Department of Personnel and Training's O.M. No.6/7/2013-CS.I(S) dated 26th December, 2014, the President is pleased to appoint the following officials as Section Officers (Group 'B' Gazetted) of Central Secretarial Service(CSS) in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2012 & 2013, for the Select List Years and with effect from the dates mentioned against their names:-

Sl. No.	Name & Designation	Select List Year	Date of appointment as Section Officer
1.	Ms. Nidhi Sharma	2012	26.12.2014(AN)
2.	Shri Mukesh Kumar	2012	29.12.2014(FN)
3.	Shri Abhishek Kumar Upadhyaya	2012	26.12.2014(AN)
4.	Ms. Bhavani R	2012	26.12.2014(AN)
5.	Shri Surya Prakash	2012	26.12.2014(AN)
6.	Ms. Shefali Saraf	2012	26.12.2014(AN)
7.	Shri Prashant Gupta	2012	29.12.2014(FN)
8.	Shri Ved Prakash Singh	2012	26.12.2014(AN)
9.	Shri Nilesh Chandra Srivastava	2012	29.12.2014(FN)
10.	Shri Vikram Kumar Yadav	2012	26.12.2014(AN)
11.	Ms. Jyoti Bala	2012	30.12.2014(AN)
12.	Shri Ajay Lawania	2012	26.12.2014(AN)
13.	Shri Abdul Gufran	2012	26.12.2014(AN)
14.	Shri Santosh Kumar Agarwal	2012	29.12.2014(FN)
15.	Shri Jaivir Singh	2012	26.12.2014(AN)
16.	Shri Shiv Ram Meena	2012	26.12.2014(AN)
17.	Shri Vinay Kumar	2012	26.12.2014(AN)
18.	Shri P.S. Mrithinjan	2012	26.12.2014(AN)
19.	Shri Naveen Chandra Joshi	2012	26.12.2014(AN)
20.	Shri Kanhiya Lal	2012	26.12.2014(AN)
21.	Shri Surendra Singh	2012	26.12.2014(AN)
22.	Shri Kuldeep Parcha	2012	26.12.2014(AN)
23.	Shri Vivek Kumar Singh	2012	29.12.2014(FN)
24.	Ms. Amrita Walia	2013	26.12.2014(AN)
25.	Shri Ram Lakhan	2013	26.12.2014(AN)
26.	Ms. Nidhi Pandey	2013	26.12.2014(AN)
27.	Shri Heeraman Ram	2013	26.12.2014(AN)
28.	Shri Satya Prakash Kumar	2013	26.12.2014(AN)

Sl. No.	Name & Designation	Select List Year	Date of appointment as Section Officer
29.	Shri Gourang Goswami	2013	26.12.2014(AN)
30.	Shri Pardeep Kumar	2013	26.12.2014(AN)
31.	Shri Manoj Kumar Meena	2013	26.12.2014(AN)
32.	Shri Vivek Singh Paikra	2013	26.12.2014(AN)

2. Their appointment shall be subject to the outcome of the following Court Cases and also as per any other order by any competent court in any of the connected matters:-

- (i) WP(C) No.5080/2014 filed by UPSC V/s Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- (ii) WP(C) No.5793/2014 filed by UPSC V/s Shri M.R. Meena & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- (iii) WP(C) No.6468/2014 filed by UPSC V/s Shri Rajeev R & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.

D.K. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 24th February 2015

No.A-12011/6/2009-Admn.II.—In pursuance of DOPT's OM Nos. 6/1/2015-CS.I(S)-I & 6/2/2015-CS.I(S)-I, dated 16.01.2015 and 20.01.2015 respectively and OM No. 12025/3/2010-CAS (Vol.III), dated 16.02.2015 of Department of Expenditure, regarding revised Select List Year of Section Officer's Grade for the year mentioned against each, against Seniority Quota, the President is pleased to appoint the following Section Officers on regular basis in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from the date mentioned against each : -

S. No	Name (Shri/Smt/Ms)	Earlier Select List Year	Revised Select List Year	Taken over charge w. e. f.
01	Pratibha Sharma, SO	2011	2010	31.12.2013
02	Archana Nagar	2010	2009	31.12.2013

2. The regular appointment of the above mentioned officers shall be subject to the outcome of the following court cases and also as per any other order by any competent court in any of the connected matters:-

- i) OA No.4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi
- ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- iv) WP (C) No. 2735/2013 filed by Shri Sauranshu Sinha & Ors. Vs. UOI and Ors. In the High Court of Delhi.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 21st January 2015

No. A-42011/1/2015-Ad.II—Consequent upon his transfer vide Office Order No. 22011/1/2014-Ad-II dt. 08.12.2014, Shri Sudhir Kapoor, a Senior Time Scale Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge of the post of Deputy Director at MCA, Hqrs w.e.f. 26.12.2014 (A.N.).

RAKESH KUMAR, Under Secy.

No. A-42011/1/2015-Ad.II—Consequent upon transfer, following Officers of Indian Corporate Law Service subsequently assumed the charge of their respective posts in concerned offices of Ministry of Corporate Affairs with effect from the dates mentioned against their name :—

S.No.	Name of the Officer	Designation & Office	W.E.F.
1.	Sh. R.K. Sahu	ROC-cum-OL, Bilaspur	28.08.2014 (F.N.)
2.	Sh. O.P. Sharma	ROC-cum-OL, Jammu & Kashmir	01.09.2014 (F.N.)
3.	Sh. V.P. Katkar	ROC-cum-OL, Goa	18.11.2014 (A.N.)
4.	Sh. Syed Md. Athar Mikail	AROC-cum-AOL in O/o ROC-cum-OL, Patna	15.12.2014 (F.N.)

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 396 of the Companies Act, 2013 read with section 2 (75) and clause (a) of subsection (1) of Section 448 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorizes these Officers of ICLS for the purpose of the said Section.

RAKESH KUMAR, Under Secy.

No. A-42011/1/2015-Ad.II.—Consequent upon transfer, following Officers of Indian Corporate Law Service subsequently assumed the charge of their respective posts in concerned offices of Ministry of Corporate Affairs with effect from the dates mentioned against their name :—

S.No.	Name of the Officer	Designation & Office	W.E.F.
1.	Sh. D.P. Ojha	Official Liquidator, Delhi	03.12.2014 (F.N.)
2.	Sh. M. Jaya Kumar	Official Liquidator, Chandigarh	08.12.2014 (F.N.)

2. In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 448 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize these Officers of ICLS for the purpose of the said Section.

RAKESH KUMAR, Under Secy.

No. A-42011/1/2015-Ad.II.—Consequent upon transfer, following Officers of Indian Corporate Law Service subsequently assumed the charge of their respective posts in concerned offices of Ministry of Corporate Affairs with effect from the dates mentioned against their name :—

S.No.	Name of the Officer	Designation & Office	W.E.F.
1.	Sh. V.E. Jose Kutty	Deputy Registrar of Companies in O/o ROC, Coimbatore.	19.09.2014 (F.N.)
2.	Sh. A. Sehar Ponraj	Registrar of Companies, Ernakulam.	07.10.2014 (F.N.)
3.	Ms. Trupti Subhash Sharma	Assistant Registrar of Companies in O/o ROC, Mumbai.	22.10.2014 (F.N.)
4.	Ms. Aparna Mudiam	Assistant Registrar of Companies in O/o ROC, Delhi.	22.10.2014 (F.N.)
5.	Sh. Sridhar Parmarthi	Registrar of Companies, Chennai.	24.10.2014 (A.N.)
6.	Sh. Sheth Vyomesh Rajeshkumar	Assistant Registrar of Companies in O/o ROC, Ahmedabad.	28.10.2014 (F.N.)

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 396 of the Companies Act, 2013 read with section 2 (75), the Central Government hereby authorizes these Officers of ICLS for the purpose of the said Section.

RAKESH KUMAR, Under Secy.

No. A-42011/1/2015-Ad.II.—Consequent upon transfer, following Officers of Indian Corporate Law Service subsequently assumed the charge of their respective posts in concerned offices of Ministry of Corporate Affairs with effect from the dates mentioned against their name :—

S.No.	Name of the Officer	Designation & Office	W.E.F.
1.	Sh. K.G. Joseph Jackson	Deputy Director in O/o RD (SR), Chennai.	01.09.2014 (F.N.)
2.	Sh. Sudhir Phaye	Assistant Director in O/o RD (NWR), Ahmedabad	11.12.2014 (F.N.)
3.	Sh. Kamal Harjani	Deputy Director in O/o RD (WR), Mumbai.	29.12.2014 (F.N.)

2. In exercise of the powers conferred by Section 206 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby authorizes these Officers of ICLS as Inspectors for the purpose of the said Section.

RAKESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 5th February 2015

No.A.45011/04/2014/E.I: The President is pleased to appoint the following officials who have been allocated to the Central Secretariat Service Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, on the basis of the results of the Section Officers' Grade Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2012 & 2013 as Section Officer on regular basis for the select list year 2013 in the CSS Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion with effect from the date indicated against their names, until further orders:—

Sl. No.	Name Shri/Smt./ Ms	Rank	Cadre where was working as Assistant	w.e.f
1	M.V. CH. Padmavathi	117	IPP	30.12.2014(F.N)
2	Shatrughan Singh Gurjar	148	IPP	26.12.2014(F.N)

2. The above appointments are subject to the outcome of the following Court cases and also as per any other order by any competent court in any of the connected matters:

- (i) WP(C) No.5080/2014 filed by UPSC V/s Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. In Delhi High Court, New Delhi.
- (ii) WP(C) No.5793/2014 filed by UPSC V/s Shri M.R. Meena & Ors. In Delhi High Court, New Delhi.
- (iii) WP(C) No.6468/2014 filed by UPSC V/s Shri Rajeev R & Ors. In Delhi High Court, New Delhi.

RAJESH KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110 107, the 18th February 2015

No. A-19011/759/10-E.I.—The President is pleased to permit Ms. Deepa Upadhyay, Assistant Director(Official Language) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, to retire voluntarily from Government service, under Rule 48-A of CCS(Pension Rules) with effect from the forenoon of 16th February, 2015.

L.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)

Mumbai-400020, the 27th February 2015

No.5(84)/2015/Est-I/132—On the basis of the recommendation made by the Union Public Service Commission vide letter No.F.1/114(13)/2013-R.IV dated 31.10.2013, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Nilay H. Pandya

to the post of Assistant Director Grade-II (Non-Technical), (Group 'B' gazetted) in the PB-2 of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 3rd March, 2014 (FN) by direct recruitment (.). He will be on probation from 03.03.2014 (FN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority (.).

ASHOK HAZRA, Dir. (Admn.)

No.5(84)/2015/Est-I/132—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Santosh V. Pakhare, Economic Officer to the post of Assistant Director Grade-II (Economics), (Group 'B' gazetted) in the PB-2 of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 12th December, 2014 (FN) on promotion basis (.). He will be on probation from 12.12.2014 (FN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority (.).

ASHOK HAZRA, Dir. (Admn.)

No.5(84)/2015/Est-I/132—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri N.C. Gupta, Technical Officer to the post of Assistant Director Grade-II (Technical), (Group 'B' gazetted) in the PB-2 of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 9th January, 2015 (FN) on promotion basis (.). He will be on probation from 09.01.2015 (FN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority (.).

ASHOK HAZRA, Dir. (Admn.)

No.5(84)/2015/Est-I/132—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri S.K. Singh, Technical Officer to the post of Assistant Director Grade-II (Technical), (Group 'B' gazetted) in the PB-2 of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 9th January, 2015 (FN) on promotion basis (.). He will be on probation from 09.01.2015 (FN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority (.).

ASHOK HAZRA, Dir. (Admn.)

No.5(84)/2015/Est-I/132—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Ashutosh Johari, Technical Officer to the post of Assistant Director Grade-II (Technical), (Group 'B' gazetted) in the PB-2 of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 12th January, 2015 (FN) on promotion basis (.). He will be on probation from 12.01.2015 (FN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority (.).

ASHOK HAZRA, Dir. (Admn.)

No.5(84)/2015/Est-I/132—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri S.R. Baisvaria, Office Superintendent to the post of Assistant Director Grade-II (Non-Technical), (Group 'B' gazetted) in the PB-2 of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 28th January, 2015 (FN) on promotion basis (.). He will be on probation from 28.01.2015 (FN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority (.).

ASHOK HAZRA, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 21st January 2015

No. A-12025/6/2010-SA—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Mahendra Kumar Yadav to the post of Junior Technical Officer (Sugar Technology) (a General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial post), in the pay scale of Rs.15600-39100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.5400/-, on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 08.12.2014 (A/N) and until further orders. He will be on probation for a period of one year.

JITENDER JUYAL, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 11th February 2015

No.A.31013/01/2012-CHS.VI—The President is pleased to appoint substantively the following Assistant Professors (Dentistry) in service cadre of General Central Services, with effect from the dates mentioned against each:-

S.No.	Name of the officer	Present place of posting	Date of appointment	Date of confirmation
1.	Dr.Karthickeyan Sivanath Somalinga	L.H.M.C. & Smt. S.K. Hospital, New Delhi	29.04.2013	29.04.2014
2.	Dr. Anand Gupta	L.H.M.C. & Smt. S.K. Hospital, New Delhi	26.03.2013	26.03.2014
3.	Dr. Rakesh Kumar Sharma	L.H.M.C. & Smt. S.K. Hospital, New Delhi	04.03.2013	04.03.2014

LALIT KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 23rd February 2015

No. 22012/01/2014-Estt.I—Consequent upon his promotion vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2015-CS.I (U) dated 20.02.2015, the President is pleased to appoint Shri Biraj Singh, Section Officer (CSL No. 8879) of CSS as Grade-I (Under Secretary) on ad-hoc basis, in the Pay scale of PB-3 ` 15,600-39,100/- + ` 6,600/- GP, in the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture with effect from the forenoon of 20.02.2015 for a period upto 28.02.2015 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The promotion to Grade-I (Under Secretary) is subject to terms and conditions as given in the Department of Personnel & Training's abovementioned Order.

BRAJESH GODRA, Under Secy.

No. 38012/2/2014-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri Ashish Bahuguna, Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, will retire from Government service with effect from the afternoon of 28th February, 2015.

BRAJESH GODRA, Under Secy.

The 25th February 2015

No. 38013/13/2014-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri Biraj Singh, Under Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation will retire from Government service with effect from the afternoon of 28th February, 2015.

BRAJESH GODRA, Under Secy.

New Delhi, the 25th February 2015

No.12-5/2014-M&T(Admn.)—The President is pleased to appoint Shri J.J.R. Narware as Director (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial), Farm Machinery Training and Testing Institute, by promotion on regular basis in the Pay Band - 3 (Rs.15,600—39,100/-) with grade pay of Rs. 7,600/- with effect from 12.02.2015. (AN).

B.B. BHAGAT, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

New Delhi-110001, the 7th November 2014

No.A-12022/02/2013-Estt.I In pursuance of Department of Personnel and Training's letter No. 36/38/2014-EO (SM.I) dated 03.11.2014 the President is pleased to appoint Shri Anoop Kumar Srivastava, IAS (AM:81), as Special Secretary in the Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment w.e.f. 16.10.2014 (Afternoon), until further orders.

N.S. VENKATESHWARAN, Under Secy.

The 14th November 2014

No. A-12022/02/2013-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel & Training's letter No. 27/15/2014-EO (SM-I) dated 03.11.2014, the President is pleased to extend the Central Deputation tenure of Shri Sanjeev Kumar, IDAS (1986) as Joint Secretary in the Department of Social Justice and Empowerment for a period of three months with effect from 01.12.2014.

N.S. VENKATESHWARAN, Under Secy.

The 12th December 2014

No.A-32013/1/2008-Estt. I In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/11/2014-CS. I (U) dated 15.09.2014, the President is pleased to appoint Shri Pravin Kumar Tripathi, Section Officer of Central Secretariat Service (CSL No. 8492) in the cadre of the Department of Department of Fertilizers, to the Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service in Department of Social Justice and Empowerment under this Ministry on adhoc basis w.e.f. 20.11.2014 (Afternoon) upto 31.05.2015 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. This adhoc promotion shall not confer on the officer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade- I of Central Secretariat Service. The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason there for. The service rendered on ad-hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.

N.S. VENKATESHWARAN, Under Secy.

The 13th January 2015

No. A-19011/10/2015-Estt. I—Shri Sudhir Bhargava, IAS (RJ:1979), Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is going to attain 60 years of his age on 12.01.2015. Therefore, Shri Sudhir Bhargava, IAS, Secretary is due to retire from the Government Service w.e.f. the afternoon of 31st January, 2015 after attaining the age of superannuation.

N.S. VENKATESHWARAN, Under Secy.

The 6th February 2015

No.A-12022/02/2013-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 36/1/2015-EO (SM-I) (2) dated 31.01.2015, the President is pleased to appoint Ms. Anita Agnihotri, IAS (OR:80), Secretary, Department of Social Justice and Empowerment in the Ministry of Social Justice and Empowerment with effect from the forenoon of 02.02.2015.

N.S. VENKATESHWARAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS

New Delhi, the 10th December 2014

No.A-42018/13/2011-Estt.—Consequent upon his transfer from Ministry of Power vide Department of Personnel & Training's order No. 33/7/2014-EO(SM-1)(20) dated 3.11.2014, the President is pleased to appoint Shri Mukesh Jain IPS(MP:1989) as Joint Secretary in the Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment under the Central Staffing Scheme w.e.f 10.11.2014 (afternoon) till his tenure up to 6.4.2016 of Central deputation.

PRADEEP PUROHIT, Under Secy.

The 18th December 2014

No.A-32013/2/2014-Estt.—Consequent upon his transfer from Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide Department of Personnel & Training O.M. No.4/11/2012-EO(MM-1) dated 31.10.2014, the President is pleased to appoint Shri Vishal Gagan, IAS(OR:98) as Director in the Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment under the Central Staffing Scheme w.e.f 5.11.2014(Forenoon) till his tenure up to 11/10/2015 of Central deputation.

PRADEEP PUROHIT, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 12th February 2015

No .ERB-I/2007/10/4 —The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.01.2014:-

- | | | |
|------|---------------------------------|------------------------------|
| i) | Shri R.K.Tandon, | Additional Member(C&IS). |
| ii) | Smt. Mamta Kandwal, | Director. |
| iii) | Shri. Ashok Munjal, | Section Officer. |
| iv) | Shri Kanapurthi Venkataramayya, | Section Officer. |
| v) | Ms. Pushpa Arora, | Section Officer. |
| vi) | Shri A.Ranganathan, | Private Secretary. |
| vii) | Shri B.K.Singh, | ASC/Railway Protection Force |

P.C.GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri D.P. Pande, Member Traffic, Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.01.2015, on attaining the age of superannuation.

P.C.GAJBHIYE, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2007/10/4—Smt. Saroj Rajware, Additional Member (Budget), Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 30.12.2014.

P.C.GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 18th February 2015

No. 09/2015 F.No. 22/705/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Babu Aniyery, an officer of Central Secretariat Official Language Service as Director (OL) on regular basis with effect from the forenoon of 8.12.2014 against vacancy for the year 2012-13, in pursuance to Deptt. of Official Language's Office Order No. 15/9/2013-O.L. (Services) dated 8.12.2014.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF DRINKING WATER & SANITATION

New Delhi-110 003, the 17th February 2014

No. A-19011/22/2015-ADMN:—The President is pleased to appoint Shri Nipun Vinayak, IAS (MH:2001) as Deputy Secretary in the Ministry of Drinking Water & Sanitation with effect from the forenoon of 09th February, 2015.

K. NARAYANA REDDY, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in